

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 407]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 — आश्विन 14, शक 1940

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-38/2014/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण एवं जिला भाड़ा नियंत्रण स्थापना (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-तीन के नीचे, टीप के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

- “टीप: (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं, के लिये उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
- (2) शीघ्रलेखक एवं सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु कम्प्यूटर संबंधी निर्धारित अर्हता के अतिरिक्त, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 9-4/2017/1-3, दिनांक 22-01-2018 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पत्रोपाधि/उपाधि भी मान्य किये जायेंगे।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

अटल नगर, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 1-38/2014/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5-10-2018 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Atal Nagar, the 5th October 2018

NOTIFICATION

No. F 1-38/2014/32. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Rent Control Tribunal and District Rent Control Establishment (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

Below Schedule-III, for Note, the following shall be substituted, namely :-

- "Note:- (1) The upper age limit shall be relaxable for candidates who are local residents of the State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.
- (2) In addition to the computer related prescribed qualification for the post of Stenographer and Assistant Grade-III, the Certificate / Diploma /Degree issued by the recognized institutions, as per circular No. F9-4/2017/1-3, dated 22-01-2018, issued by the General Administration Department shall also be recognized."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.